

# Lev

## Chapter 19

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר  
और-बोला यहोवा से- मूसा कहते-हुए  
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

2  
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-כָּל-עַדְוַת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדָשִׁים תְּהִיוּ כִּי קָדֹשׁ  
बोल यहोवा से- सब- सभा पुत्रों-के- इस्राएल और-कह उनसे पवित्र पवित्र  
होगे क्योंकि  
[H6918](#) [H1961](#) [H6918](#) [H0413](#) [H0559](#) [H3478](#) [H5712](#) [H3605](#) [H0413](#) [H1696](#)  
אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם:  
मैं यहोवा तुम्हारा-परमेश्वर  
[H0430](#) [H3068](#) [H0589](#)

“इस्राएल के सभी लोगों से कहो: कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ मैं पवित्र हूँ! इसलिए तुम्हें पवित्र होना चाहिए!

3  
וְאֵשׁ אִמּוֹ וְאִבּוֹ וְאֶבְיֹוֹתָיו וְאֶת-זֵרְעוֹ וְאֶת-תְּשׁוּבָתוֹ וְאֶת-אֲנִי יְהוָה  
कोई-भी अपनी-माता और-अपने-पिता-से डरोगे और-को- मेरे-विश्रामों पालन-करोगे मैं यहोवा  
[H3068](#) [H0589](#) [H8104](#) [H7676](#) [H0853](#) [H3372](#) [H0001](#) [H0517](#) [H0376](#)  
אֱלֹהֵיכֶם:  
तुम्हारा-परमेश्वर  
[H0430](#)

“तुम में से हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और मेरे विश्राम के विशेष दिनों को मानना चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।

4  
אֵל-תַּפְנוֹ אֶל-הָאֱלֹהִים וְאֶל-הָאֱלֹהִים וְאֶת-הָאֱלֹהִים וְאֶת-הָאֱלֹהִים וְאֶת-הָאֱלֹהִים  
मत- मुड़ी की-ओर- मूर्तियों और-देवताएं नहीं बनाओगे अपने-लिए लकड़ें  
यहोवा मैं  
[H3068](#) [H0589](#) [H3808](#) [H0430](#) [H0457](#) [H0413](#) [H6437](#) [H0408](#)  
אֱלֹהֵיכֶם:  
तुम्हारा-परमेश्वर  
[H0430](#)

“मूर्तियों की उपासना मत करो। अनपे लिए देवताओं की मूर्तियों धातु गला कर मत बाओ। मैं तुम लोगों का परमेश्वर यहोवा हूँ!

5  
וְכִי תִזְבְּחוּ זֶבַח שְׁלָמִים לַיהוָה וְהָיָה לְרֹצְחוֹת אֶת-בְּאֵשׁ  
और-जब मेलबलि-की बलि बलि-चढ़ाओ और-जब यहोवा-के-लिए यहोवा-के-लिए अपने-प्रसन्नता-के-लिए बलि-चढ़ाओ-उसे  
[H2076](#) [H7522](#) [H3068](#) [H8002](#) [H2077](#) [H2076](#)

“जब तुम यहोवा को मेलबलि चढ़ाओ तो तो तुम उसे ऐसे चढ़ाओ कि तुम यहोवा द्वारा स्वीकार किए जा सको।

6  
בְּיוֹם בָּאֵשׁ יִשְׂרָף וְהָיָה לְרֹצְחוֹת אֶת-בְּאֵשׁ יִשְׂרָף וְהָיָה לְרֹצְחוֹת  
दिन-में जलाया-जाएगा अपनी-बलि-के दिन-में तीसरे दिन तक- और-जो-बचा और-दूसरे-दिन खाया-जाएगा  
आग-में तीसरे दिन  
[H0784](#) [H7992](#) [H3117](#) [H5704](#) [H3498](#) [H4283](#) [H0398](#) [H2077](#) [H3117](#)  
יִשְׂרָף:  
जलाया-जाएगा  
[H8313](#)

तुम इसे चढ़ाने के दिन खा सकोगे और अगले दिन भी। किन्तु यदि बलि का कुछ भाग तीसरे दिन भी बच जाए तो उसे उसे तुम्हें आग में जला देना चाहिए।

וְיָרֶגְדָה:	לֹא	הוּא	פְּנוּל	הַשְּׁלִישִׁי	בַּיּוֹם	יֹאכֵל	הָאֵכָל	וְאִם	7
ग्रहण-योग्य-होगा	नहीं	है-वह	अशुद्ध	तीसरे	दिन-में	खाया-जाए	खाने-से	और-यदि	
<a href="#">H7521</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H6292</a>	<a href="#">H7992</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H0398</a>		

किसी भी बलि को तीसरे दिन नहीं खाना चाहिए। यह अशुद्ध है। यह स्वीकार नहीं होगी।

וְנִכְרְתָהּ	חֲלָל	יְהוָה	קֹדֶשׁ	אֶת-	כִּי-	יִשָּׂא	עֹנֵנוּ	וְאֶכְלֵנוּ	8
और-काट-दिया-जाएगा	अपवित्र-किया	यहोवा-का	पवित्र	को-	क्योंकि-	उठाएंगे	अपना-अधर्म	और-उसके-खानेवाले	
<a href="#">H3772</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H0398</a>	

מַעֲמִיָּה:      הַהוּא      הַנֶּפֶשׁ  
 अपनी-प्रजा-से      वह      वह-प्राण  
[H1931](#)      [H5315](#)

यदि कोई व्यक्ति ऐसा करात है तो वह अपारधी होगा। क्यों? क्योंकि उसने यहोवा की पवित्र चीजों का सम्मान नहीं किया। उस व्यक्ति को अपने लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए।

לִקְצֹר	שָׂדֵךְ	פֶּאֶת	חֲכֹלָהּ	לֹא	אֶרְצְכֶם	קִצִּיר	אֶת-	וּבְקִצְרְכֶם	9
काटने-को	अपने-खेत-का	कोना	पूरा-करोगे	नहीं	अपनी-भूमि-की	फसल	को-	और-काटने-में-तुम्हारे	
		<a href="#">H6285</a>	<a href="#">H3615</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0776</a>		<a href="#">H0853</a>		

תִּלְקַט:      לֹא      קִצִּירָהּ      וְלִקְטָהּ  
 चुनोगे      नहीं      अपनी-फसल-का      और-बटोरा  
[H3950](#)      [H3808](#)      [H3951](#)

“जब तुम कटनी के समय अपनी फ़सल काटो तो तुम सब ओस से खेत के कोनों तक मत काटो और यदि अन्न जमीन पर गिर जाता है तो तुम्हें उसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए।

לְעֵנִי	חֲלֹקֶט	לֹא	כְּרִמָּה	וּפְרֹט	תְּעוֹלָל	לֹא	וּכְרִמָּה	10
के-लिए-गरीब	चुनोगे	नहीं	अपनी-दाख-लता-का	और-गिरा-हुआ	दुबारा-तोड़ोगे	नहीं	और-अपनी-दाख-लता	
<a href="#">H6041</a>	<a href="#">H3950</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3754</a>	<a href="#">H6528</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3754</a>	

אֱלֹהֵיכֶם:      יְהוָה      אֲנִי      אֲתָם      תְּעוֹב      וְלִגְרֵךְ  
 तुम्हारा-परमेश्वर      यहोवा      मैं      उन्हें      छोड़ोगे      और-के-लिए-परदेशी  
[H0430](#)      [H3068](#)      [H0589](#)      [H0853](#)      [H1616](#)

अपने अँगूर के बाग के सारे अंगूर न तोड़ो और जो जमीन पर गिर जाएँ उन्हें न उठाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें वे चीज़ें गरीब लोगों और जो तुम्हारे देश से यात्रा करेंगे, उनके लिए छोड़नी चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ!

בְּעֲמִיתוֹ:	אִישׁ	תִּשְׁקְרוּ	וְלֹא-	תִּכְחָשׁוּ	וְלֹא-	תִּגְנוּבוּ	לֹא	11
अपने-पड़ोसी-से	कोई-भी	धोखा-करोगे	और-नहीं-	झूठ-बोलोगे	और-नहीं-	चोरी-करोगे	नहीं	
<a href="#">H5997</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H8266</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3584</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1589</a>	<a href="#">H3808</a>	

“तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें लोगों को ठगना नहीं चाहिए। तुम्हें आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए।

אֲנִי	אֱלֹהֵיךָ	שֵׁם	אֶת-	וְחֲלָלְתָהּ	לְשֹׁקֶר	בְּשֵׁמִי	תִּשְׁבְּעוּ	וְלֹא-	12
मैं	अपने-परमेश्वर-का	नाम	को-	और-अपवित्र-करोगे	झूठी-के-लिए	मेरे-नाम-में	शपथ-खाओगे	और-नहीं-	
<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H8267</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H7650</a>	<a href="#">H3808</a>	

יְהוָה:  
 यहोवा  
[H3068](#)

तुम्हें मेरे नाम पर झूठा वचन नहीं देना चाहिए। यदि तुन ऐसा करेत हो तो तुम यह दिखाते हो कि तुम अनपे परमेश्वर के नाम का सम्मान नहीं करते हो। मैं यहोवा हूँ!

13  
 אֶתְּךָ אִתְּךָ אֶתְּךָ אֶתְּךָ אֶתְּךָ אֶתְּךָ אֶתְּךָ אֶתְּךָ אֶתְּךָ אֶתְּךָ  
 तेरे-साथ मजदूर-की मजदूरी रहेगी नहीं- लूटोगे और-नहीं अपने-पड़ोसी को- जुल्म-करोगे नहीं-  
 H0854 H7916 H6468 H3808 H1497 H3808 H7453 H0853 H6231 H3808

עַד בְּקֶרֶב  
 तक- सुबह  
 H1242 H5704

“तुम्हें अपने पड़ोसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम्हें उसकी चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मजदूर की मजदूरी पूरी रात, सवेरे तक नहीं रोकनी चाहिए।

14  
 אֲנִי מֵאֵלֶיךָ וְיִרְאַתְךָ מִכְשָׁל תִּתֵּן לֹא עִוָר וְלִפְנֵי חַרְשׁ תִּקְלָל לֹא-  
 मैं अपने-परमेश्वर-से और-डरोगे ठोकर रखोगे नहीं अंधे-के और-सामने बहरे-को श्राप-दोगे नहीं-  
 H0589 H0430 H3372 H4383 H5414 H3808 H5787 H6440 H2795 H7043 H3808

יְהוָה יְהוָה  
 यहीवा  
 H3068

“तुम्हें किसी बहरे आदमी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तुम्हें किसी अन्धे को गिराने के लिए उसके सामन कोई चीज नहीं रखनी चाहिए। किन्तु तुम्हें अपने परमेश्वर यहीवा का सम्मान करना चाहिए। मैं यहीवा हूँ।

15  
 פִּנְי מִתְּהַרַר וְלֹא תִלְ דִּין פְּנֵי- תִשָּׂא לֹא- בְּמִשְׁפַּט עוֹרֵל תִּעָשֶׂה לֹא-  
 मुख सम्मान-करोगे और-नहीं दीन-का मुख-का- पक्षपात-करोगे नहीं- न्याय-में अन्याय करोगे नहीं-  
 H6440 H1921 H3808 H1800 H6440 H5375 H3808 H4941 H3808

גְּדוֹל בְּצַדִּיק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתְךָ  
 बड़े-का अपने-पड़ोसी-का न्याय-करोगे धार्मिकता-से  
 H5997 H8199 H6664

“तुम्हें न्याय करने में ईमानदार होना चाहिए। न तो तुम्हें गरीब के साथ विशेष पक्षपात करना चाहिए और न ही बड़े एवं धनी लोगों के प्रति कोई आदर दिखाना चाहिए। तुम्हें अपे पड़ोसी के साथ न्याय करते समय ईमानदार होना चाहिए।

16  
 יְהוָה אֲנִי רָעָה עַל- תִּעֲמָד לֹא בְּעֵינַי רִבְלִי תִלָּךְ לֹא-  
 यहीवा मैं अपने-पड़ोसी-के खून पर- खड़े-होगे नहीं अपनी-प्रजा-में चुगली-खोर चलोगे नहीं-  
 H3068 H0589 H7453 H1818 H5975 H3808 H7400 H3212 H3808

तुम्हें अन्य लोगों के विरुद्ध चारों ओर अफवाहें फैलाते हुए नहीं चलना चाहिए। ऐसा कुछ न करो जो तुम्हारे पड़ोसी के जीवन को खतरे में डाले। मैं यहीवा हूँ!

17  
 וְלֹא- עֲמִיתְךָ אֶת- תּוֹכִיחַ הוֹכַח בְּלִבְבְּךָ אֶת- תִּשְׁנָא לֹא-  
 और-नहीं- अपने-पड़ोसी के-साथ- डांटोगे डांटते-हुए अपने-मन-में अपने-भाई के-साथ- बैर-करोगे नहीं-  
 H3808 H5997 H0853 H3198 H3198 H3824 H0251 H0853 H8130 H3808

תִּשָּׂא עֲלֵיךָ פָּאָפּ  
 उठाओगे उस-पर पाप  
 H2399 H5375

“तुम्हें अपने हृदय में अपने भाईयों से घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हारा पड़ोसी कुछ बुरा करता है तो इसके बारे में उसे समझाओ। किन्तु उसे क्षमा करो!

18  
 לֹא-עֲשֵׂה וְאַהֲבָתְךָ עִוָר בְּנֵי אֶת- תִּטֵּר וְלֹא- תִקָּם לֹא-  
 अपने-पड़ोसी-से और-प्रेम-करोगे अपनी-प्रजा-के पुत्रों के-साथ- द्वेष-रखोगे और-नहीं- बदला-लोगे नहीं-  
 H7453 H0157 H0853 H5201 H3808 H5358 H3808

יְהוָה אֲנִי כְמוֹת  
 यहीवा मैं जैसा-अपने-आप-से  
 H3068 H0589 H3644

लोग, जो तुम्हारा बुरा करें, उसे भुल जाओ। उससे बदला लेना का प्रयत्न न करो। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अनपे आप से करते हो। मैं यहीवा हूँ!

19 אֶת- חַקְתִּי וְהַשְׁמֵרֹהּ בְּהַמְתָּהּ לֹא- תִרְבִּיעַ כְּלָאִים שָׂדֶךְ לֹא- תִזְרַע  
 को- मेरी-विधियों पालन-करोगे अपने-पशु नहीं- मिलाओगे दो-जाति-के अपने-खेत नहीं- बोओगे  
 H0853 H2708 H8104 H0929 H3808 H7250 H3610 H2232 H3808

כְּלָאִים וּבָנָד כְּלָאִים שְׁעֵטָיו לֹא יַעֲלֶה עֲלֶיךָ : פ  
 दो-जाति-का और-वस्त्र मिश्रित नहीं पहनेगा तुम-पर —  
 H3610 H3610 H8162 H3808 H5927

“तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। दो जातियों के पशुओं को प्रजनन के लिए आपस में मत मिलाओ। तुम्हें दो प्रकार के बीज नहीं बोने वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए।

20 וְאִישׁ כִּי- יִשְׁכַּב אֶת- אִשְׁהָ שְׁכַבְתָּ- זָרַע וְהוּא שְׂפָחָה נְחָרְפֹת לְאִישׁ  
 और-कोई जब- लेटेगा के-साथ- स्त्री शयन- वीर्य-का और-वह दासी मंगनी-की-हुई किसी-पुरुष-से  
 H0376 H7901 H0854 H0802 H7902 H2233 H1931 H8198 H0376

וְהַפְּדָהּ לֹא נִפְדָּתָה אֹי חַפְּשָׁה לֹא נִתְּן- לָהּ בְּקִרְתָּהּ תִּהְיֶה לֹא יוֹמָתוּ  
 और-छुड़ाई-से नहीं छुड़ाई-गई या स्वतन्त्रता नहीं दी-गई-उसे जांच होगी मारे-जाएंगे  
 H6299 H3808 H2668 H5414 H3808 H1244 H1961 H4191

כִּי- לֹא חַפְּשָׁה :  
 क्योंकि- नहीं छुड़ाई-गई-वह  
 H3808 H2666

“यह हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की दासी से किसी व्यक्ति का यौन सम्बन्ध हो। यदि यह दासी न तो खरीदी गई है न ही स्वतन्त्र कराई गई है तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। किन्तु वे मारे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्त्री स्वतन्त्र नहीं थी।

21 וְהָבִיא אֶת- אֲשָׁמוֹ לַיהוָה אֶל- פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֵיל אֲשָׁם :  
 और-लाएगा को- अपनी-दोषबलि यहोवा-के-लिए के-पास- द्वार तम्बू-के मिलापवाले मेंढा दोषबलि-का  
 H0935 H0853 H0817 H3068 H0413 H6607 H0168 H4150 H0817

उस व्यक्ति को अपने अपराध के लिए मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा को बलि चढ़ानी चाहिए। व्यक्ति को एक मेंढा दोषबलि के रूप में लाना चाहिए।

22 וְכִפֵּר עָלָיו הַכֹּהֵן בְּאֵיל הָאֲשָׁם לִפְנֵי יְהוָה עַל- חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר  
 और-प्रायश्चित्त-करेगा उस-पर याजक मेंढे-से तम्बू-के दोषबलि-के सामने यहोवा-के के-लिए-उसके-पाप जो  
 H3548 H0817 H6440 H3068

חַטָּא וְנִסְלַח לוֹ מִחַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חַטָּא : פ  
 पाप-किया और-क्षमा-किया-जाएगा उसे उसके-पाप-से जो पाप-किया —  
 H2398 H5545 H2398

याजक उस व्यक्ति के पापों के भुगतान करने के लिए उपासना करेगा। याजक यहोवा को दोषबलि के रूप में मेंढे को चढ़ाएगा। यह व्यक्ति के किए हुए पापों के लिए होगा। तब व्यक्ति अपने किए पाप के लिए क्षमा किया जाएगा।

23 וְכִי- תָבֵאוּ אֵל- הָאָרֶץ וְנִשְׁעַתְּמוּ כָּל- עֵץ מֵאֲזָלָה וְעֵרְלָתוֹ  
 और-जब- आओगे में- भूमि और-लगाओगे सब- पेड़ खाने-का खलड़ी-कैसी-उसकी  
 H0935 H0413 H0776 H3605 H5193 H6086 H3978 H6188 H6190

אֶת- פְּרִיֹו שְׁלֹשׁ שָׁנִים יְהִיָה לְכֶם עֲרְלִים לֹא יֵאָכֵל :  
 को- उसके-फल तीन साल होगा तुम्हारे-लिए खतना-रहित नहीं खाया-जाएगा  
 H0853 H6529 H7969 H8141 H1961 H6189 H3808 H0398

“भविष्य में तुम अपने प्रदेश में प्रवेश करोगे। उस समय भोजन के लिए तुम अनेकों प्रकार के पेड़ लगाओगे। पेड़ लगाने के बाद पेड़ के किसी फल का उपयोग करने का लिए तुम्हें तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम्हें उससे पहले के फल का उपयोग नहीं करना चाहिए।

24 וּבִשְׁנָה וּבְשָׁנָה יְהִיָה כָּל- פְּרִיֹו קֹדֶשׁ הַלְלוּלִים לַיהוָה :  
 और-साल-में चौथे होगा सब- उसका-फल पवित्र स्तुति-का खतना-रहित होगा  
 H8141 H7243 H1961 H3605 H6529 H6944 H1974 H3068

चौथे वर्ष उस पेड़ के फल यहोवा के होंगे। यह यहोवा की स्तुति के लिए पवित्र भेंट होगी।

יְהוָה	אֲנִי	תְּבוֹאָתוֹ	לְכֶם	לְהוֹסִיף	פְּרִיֹו	אֶת-	תֹּאכְלוּ	הַחֲמִישֵׁת	וּבשָׁנָה	25
यहोवा	मैं	उसकी-उपज	तुम्हारे-लिए	बढ़ाने-को	उसका-फल	को-	खाओगे	पाँचवें	और-साल-में	
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H8393</a>		<a href="#">H3254</a>	<a href="#">H6529</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H2549</a>	<a href="#">H8141</a>	

אֱלֹהֵיכֶם:  
तुम्हारा-परमेश्वर  
[H0430](#)

तब, पाँचवें वर्ष तुम उस पेड़ का फल खासकते हो और पेड़ का फल खा सकते हो और पेड़ तुम्हारे लिए अधिक से अधिक फल पैदा करेगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ!

תְּעוּגְנוּ:	וְלֹא	תִּנְחָשׁוּ	לֹא	הָרֶם-	עַל-	תֹּאכְלוּ	לֹא	26
शगुन-लोगे	और-नहीं	टोना-टोटका-करोगे	नहीं	मांस	खून-सहित-	खाओगे	नहीं	
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5172</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1818</a>		<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H3808</a>	

“तुम्हें कोई चीज़, उसमें खून रहते तक नहीं खानी चाहिए। तुम्हें भविष्यवाणी करने के लिये जादू या शगुन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए।

זְקָנָה:	פֶּאֶת	אֶת	תִּשְׁחִית	וְלֹא	רֹאשְׁכֶם	פֶּאֶת	תִּקְפוּ	לֹא	27
अपनी-दाढ़ी-के	कोने	को	नष्ट-करोगे	और-नहीं	अपने-सिर-का	कोना	छांटोगे	नहीं	
<a href="#">H2206</a>	<a href="#">H6285</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7843</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H6285</a>	<a href="#">H3808</a>		

“तुम्हें अपने सिर के बगल के बड़े बालों कटवाना नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी दाढ़ी के किनारे नहीं कटवाने चाहिए।

אֲנִי	בְּכֶם	תִּתְנוּ	לֹא	קִעְקַע	וּכְתַבְתָּ	בְּבִשְׂרֹכֶם	תִּתְנוּ	לֹא	לְנֶפֶשׁ	וְשָׂרֵט	28
मैं	अपने-में	दोगे	नहीं	गोदने-का	और-लिखना	अपने-शरीर-में	दोगे	नहीं	प्राण-के-लिए	और-काटना	
<a href="#">H0589</a>		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7085</a>	<a href="#">H3793</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5315</a>		

יְהוָה:  
यहोवा  
[H3068](#)

किसी मरे व्यक्ति की याद को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने अपने शरीर को काटना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर कोई चिन्ह गुदवाना नहीं चाहिए मैं यहोवा हूँ!

וּמִלֵּאָה	הָאָרֶץ	תִּזְנֶה	וְלֹא-	לְהִזְנֹתָהּ	בְּתָרֵי	אֶת-	תִּחְלֵל	אֶל-	29
और-भर-जाएगी	भूमि	व्यभिचार-करेगी	और-नहीं-	वेश्या-बनाने-को-उसे	अपनी-बेटी	को-	अपवित्र-करो	मत-	
<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H2181</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2181</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0408</a>	

זְמָה:  
दुष्कर्म-से  
[H2154](#)

הָאָרֶץ  
भूमि  
[H0776](#)

“तुम अपनी पुत्री को वेश्या मत बनने दै। इससे केवल यह पता चलता है कि तुम उसका आदर नहीं करते। तुम अपने देश में स्त्रियों को वेश्याएँ मत बनने दो। तुम अपने देश को इस के पापों से मत भर जानेदो।

יְהוָה:	אֲנִי	תִּירָאוּ	וּמִקְדָּשֵׁי	תִּשְׁמְרוּ	שְׁבֻתוֹתַי	אֶת-	30
यहोवा	मैं	डरोगे	और-मेरे-पवित्र-स्थान-से	पालन-करोगे	मेरे-विश्रामों	को-	
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H4720</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H7676</a>	<a href="#">H0853</a>	

“तुम्हें मेरे विश्राम के विशेष दिनों में काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें मेरे पवित्र स्थान का सम्मान करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ!

אֲנִי	בְּהֶם	לְטָמְאָה	תִּבְקָשׁוּ	אֶל-	תִּירְעוּנִים	וְאֶל-	הָאֲבֹת	אֶל-	תִּפְנוּ	אֶל-	31
मैं	उनसे	अशुद्ध-होने-को	खोजो	मत-	जाननेवालों	और-की-और-	भूतों	की-और-	मुड़ो	मत-	
<a href="#">H0589</a>			<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H3049</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0178</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6437</a>	<a href="#">H0408</a>	

אֱלֹהֵיכֶם:  
तुम्हारा-परमेश्वर  
[H0430](#)

יְהוָה  
यहोवा  
[H3068](#)

“ओझाओं तथा भूतसिद्धियों के पास सलाह के लिए मत जाओ। उनके पास तुम मत जाओ, वे केवल तुम्हें अशुद्ध बनाएँगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ!”

פ	יְהוָה:	אֲנִי	מֵאֵלֶיךָ	וַיִּרְאֶת	זָקֵן	פְּנֵי	וַהֲדַרְתָּ	תְּקוּם	שִׁיבָה	מִפְּנֵי	32
—	यहोवा	मैं	अपने-परमेश्वर-से	और-डरोगे	बूढ़े-का	मुख	और-सम्मान-करोगे	खड़े-होगे	बुढ़ापे-के	सामने	
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H2205</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H1921</a>		<a href="#">H7872</a>	<a href="#">H6440</a>	

“बूढ़े लोगों का सम्मान करो। जब वे कमरे में आएँ तो खड़े हो जाओ। अपने परमेश्वर का सम्मान करो। मैं यहोवा हूँ!”

	אֲהוּ:	תֹּנֶה	לֹא	בְּאַרְצְכֶם	גֵּר	אֶתְּ	יָנוּר	וְכִי-	33
	उसे	सताओगे	नहीं	तुम्हारी-भूमि-में	परदेशी	तेरे-साथ	रहता-है	और-जब-	
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3238</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1616</a>	<a href="#">H0854</a>			

“अपने देश में रहने वला विदेशियों के साथ बुरा व्यवहार मत करो!

כְּמוֹן	לֹא	וְאַהֲבַתְּ	אֶתְּ	הַגֵּר	הַגֵּר	לְכֶם	יְהִי	מִכֶּם	כְּאֶזְרָח	34
जैसा-अपने-आप-से	उससे	और-प्रेम-करोगे	तुम्हारे-साथ	रहनेवाला	परदेशी	तुम्हारे-लिए	होगा	तुम-में-से	जैसा-देशी	
<a href="#">H3644</a>		<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H0854</a>		<a href="#">H1616</a>		<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H0249</a>	

אֱלֹהֵיכֶם:	יְהוָה	אֲנִי	מִצְרַיִם	בְּאַרְצִי	הָיִיתֶם	גֵּרִים	כִּי-
तुम्हारा-परमेश्वर	यहोवा	मैं	मिस्र-के	मैं-देश	थे-तुम	परदेशी	क्योंकि-
<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1616</a>	

तुम्हें विदेशियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जौ तुम अपने नागरिकों के सात करते हो। तुम विदेशियों से वैसा प्यार करो जैसा अपने से करते हो। क्यों? क्योंकि तुम भी एक समय मिस्र में विदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ!

לֹא-	תַעֲשֶׂוּ	עוֹל	בְּמִשְׁפַּט	בְּמִזְגָּה	בְּמִשְׁקָל	וּבְמִשׁוֹרָה:	35
नहीं-	करोगे	अन्याय	न्याय-में	माप-में	तौल-में	और-नाप-में	
			<a href="#">H4941</a>		<a href="#">H4948</a>	<a href="#">H4884</a>	<a href="#">H3808</a>

“तम्हें न्याय करते समय लोगों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तुम्हें चीज़ों के नापने और तौलने में ईमानदार होना चाहिए।

מֵאֲזֵנֵי	צֶדֶק	אֲבִי-	צֶדֶק	אֵיפֶת	צֶדֶק	וְהִין	יְהִי	לְכֶם	אֲנִי	יְהוָה	36
तराजू	धार्मिक	बाट-	धार्मिक	एपा	धार्मिक	और-हीन	होगा	तुम्हारे-लिए	मैं	यहोवा	
<a href="#">H3976</a>	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H0374</a>	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H1969</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H3068</a>	

אֱלֹהֵיכֶם:	אֶשֶׁר-	הוֹצֵאתִי	אֶתְּ	מִצְרַיִם:
तुम्हारा-परमेश्वर	जिसने-	निकाला	तुम्हें	मिस्र-के
<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4714</a>

तुम्हारे टोकरियाँ ठीक माप की होनी चाहिए। तुम्हारे नापने के पात्रों में द्रव की उचित मात्रा आनी चाहिए। तुम्हारे तराजू और तुम्हारे बाट चीज़ों को ठीक तौलने वाले होने चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ! मैं तुम्हें मिस्र देश से बहरा लाया!

וּשְׁמֵרְתֶם	אֶת-	כָּל-	חֻקֹּתַי	וְאֶת-	כָּל-	מִשְׁפָּטַי	וְעִשְׂתֶם	אֹתָם	אֲנִי	יְהוָה:	37
और-पालन-करोगे	को-	सब-	मेरी-विधियों	और-को-	सब-	मेरे-नियमों	और-करोगे	उन्हें	मैं	यहोवा	
<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2708</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H3068</a>	

פ

“तुम्हें मेरे सभी नियमों और निर्णयों को याद रखना चाहिए और तुम्हें उनका पालन करना चाहिए। मैं यहोवा हूँ!”